

KENDRIYA VIDYALAYA NO.4, BHUBANESWAR



SESSION 2021 - 22

Registration Form for Class –XI

Fresh Admission (**Outside KV Students**)

(Admission Subject to availability of seats as per KVS Admission Guidelines 2021-22)

Registration No. /SNO _____

Stream: **Commerce**

1) Name of the Applicant _____ (in block letters)

2) Father's Name _____

3) Mother's Name _____

4) Date of Birth(in Figure) _____

(in words) _____

5) Address / Res: _____

Permanent: - _____

6) Service Category _____ Office Address _____

Cat: 1 Central government permanent employee.

Cat: 2 Permanent Employee Autonomous departments under central govt.

Cat: 3 State government permanent employee

Cat: 4 Permanent Employee Autonomous departments under state govt.

Cat: 5 Private job, business, farming, other work

(Attach Service certificate issued by competent authority or office for Govt employees only)

7) Telephone/ Mobile No. _____ WhatsApp No _____

8) Email ID _____

9) Please give following details and Enclose all related documents

Aadhar Card Number: _____ Blood group _____

10) Do you belong to SC/ST/OBC (Enclose Certificate) _____

11) Achievement in Games & Sports/Scouting & Guiding/ NCC/ Adventure activities with level in state or national (attach copy) _____

12) Details of qualifying Exam. passed (Class X) Board _____ Year _____ Roll No. _____ Appeared (Regular/Private) _____ School name with Address _____

13) Domicile State _____ Mother Language _____

Recent
Passport Size
of Photo of the
Applicant in
school uniform

14) Details of the grade & grade points obtained in qualifying Exam. (enclose scanned copy of Mark sheet)

S.No.	Subjects	Marks	Percentage	Subject Percentage	
1.	English				
2.	Hindi/ Sanskrit			Science	
3.	Mathematics				
4.	Science			Maths	
5.	Social Science				
6.	Percentage Marks in Aggregate (TOTAL)			Average (Science+ Maths)	
7.	Any additional subject if taken				
8.	Total				

15) Please tick (v) in appropriate box for stream/Subject choices in which admission is sought provided below:

a) Commerce:

- i) English Core, Business Studies, Accountancy, Economics, Hindi ()
ii) English Core, Business Studies, Accountancy, Economics, Maths ()
iii) English Core, Business Study, Accountancy, Economics and Informatics Practices ()

Note: 1. Attach self-attested scan copy of all related document.

UNDERTAKING

I (Student) and..... (Parent) hereby give undertaking that the above given option for Stream and Subjects for Class- XI has been offered by us after due consideration and that our decision is final in this regard. We also submit that no request regarding change of stream or/ and subject(s) will be made by or on behalf of us in future.

Date.....

Place.....

Signature of the Student

Signature of Parent

.....

Acknowledgement receipt (For office use only)

Received Admission form SL. No. _____ from _____ for admission in Class XI.

Date.....

Signature of Clerk

NOTE: THE TOTAL FORM HAS TO BE PRINTED FILLED , SCANNED AND EMIL TO : kv4bbsradmission@gmail.com

BY 12th AUGUST 2021



केन्द्रीय विद्यालय क्र.4 भुवनेश्वर
KENDRIYA VIDYALAYA No.4, BHUBANESWAR

(Tel No. 0674-2721298, E-Mail:kv4bbsr@gmail.com web site: no4bhubaneswar.kvs.ac.in)

पंजीकरण प्रपत्र / REGISTRATION FORM

Annexure VI

REG. NO.

क्रम सं S.No.

वर्ष/Year 2021-22

Photograph of the child

(Passport size)

पंजीकरण के लिए कक्षा Registration for class...../ Stream.....(Put tick mark in appropriate box)

1^पविद्यार्थी का पूरा नाम

Name of child in full (in Capital letters).....

Sex M

F

Day

Month

Year

2^प जन्म तिथि (अंको में) Date of Birth

शब्दों में/In words.....

3. Age as on 31.3.2021

Years

Months

Days

4. Blood Group of the child

5^प क्या आप सामान्य श्रेणी /अनुसूचित जाति /जनजाति / ओ बी सी से / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग /बी पी एल/ विकलांग/इकलौती कन्या यदि हां तो प्रमाण -पत्र संलग्न करें।
Do you belong to Gen./SC/ST/OBC/EWS/BPL/Disabled/S.G. Child ? Yes No If yes, attach relevant certificate

6^प निम्नलिखित में से जो लागू हो उसे सही (✓) करें

सामान्य श्रेणी

अनु० जाति

अनु० जन जाति

ओ.बी.सी.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

बी पी एल

विकलांग

इकलौती कन्या

Gen. Cat

SC

ST

OBC

EWS

BPL

Disabled

SG Child

7 माता-पिता का ब्यौरा/ Details of Mother/ Father

माता Mother

पिता Father

- (i) नाम/ Name (in Capital letters).....
- (ii) राष्ट्रियता/ Nationality
- (iii) व्यवसाय/ Occupation
- (iv) कार्यालय का नाम पूरा पता व दूरभाष
Name of Office and full address
with telephone numbers
- (v) पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष
Full residential address with
telephone numbers(with proof)
- (vi) विद्यालय से दूरी/ Distance from KV*
- (vii) स्थाई पता/Permanent Address
- (viii) मूल वेतन/ Basic Pay
- (ix) 31^प3^प2020 तक सेवाकाल के दौरान 7 वर्षों में थानान्तरणों की संख्या
No.of transfers during 7 years as on 31-3-2020 of the year.....
- (x) श्रेणी रक्षा/ केन्द्रीय कर्मी/ स्वायत्तशासी व अन्य Category to which the Parent belong to Defence/Central Govt./ Autonomous body & others -

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त प्रविष्टियां मेरी जानकारी में सत्य हैं। I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

Signature of Parent

Date:.....

Name:.....

Acknowledgement

S. No

Registration No.....

Received an application from Shri/Smt.....for registration of her/ his son/
daughter.....for admission to class.....

Date.....

Kendriya Vidyalaya (Stamp)

सेवा प्रमाण-पत्र /SERVICE CERTIFICATE

Central Govt/ State Govt

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....कार्यालय/मंत्रालय में कार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल/एन.एस.जी./एस.पी.जी./सी.आई.एस.एफ./ केन्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के/की कर्मचारी हैं जिनका पूर्ण वित्त प्रबंध केन्द्रीय स्थानांतरणीय / राज्य सरकार स्वायत्त संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के/की नियमित कर्मचारी हैं जिनका पूर्ण वित्त प्रबंध स्थानांतरणीय हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....जो.....के माता-पिता हैं, उनके 31.03.2021 से पहले सात वर्ष के दौरानस्थानांतरण हुए हैं। एकक/कार्यालय और ऐसी तैनातियों की अवधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है, जिसके कारण स्थान बदलना पड़ता है।

Certified that Shri/Smt.....is working in the office/Ministry of He/She is an **regular employee** of Defence Service /CRPF /BSF /NSG /SPG /CISF /Central Govt. /Autonomous Body/Public Sector Undertaking fully financed/partially financed by Central Govt. / State Govt. / Autonomous Body/Public Sector Undertaking fully financed/partially financed by State Govt. and his/her services are transferable.

It is further certified that Shri/Smt Father / mother of has/had.....(No. of posting) transfers during the preceding last seven years from 31st march 2021. The Unit Office & the duration of such postings involving change of station are given below:-

क्र.सं. S.No.	पदनाम Designation	स्थान Place of Posting	ठहरने की अवधि Period of stay		आदेश संख्या Order No.
			से From	तक To	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

स्थान एवं दिनांक

कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मुद्रांक सहित)

Station with date
stamp

Sign. & Name in block letters and design. of the head of office with

दूरभाष : Telephone No.....

टिप्पणी : रक्षा संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में सेवा प्रमाण पत्र पर कमान अधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।

Note : The service Certificate should be signed by the officer commanding in case of employees working in defence establishment.